



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 217]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 23, 1979/ज्यैष्ठ 2, 1901

No. 217]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 23, 1979/JYAISTHA 2, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## भारत निर्वाचन आयोग अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 1979

का० आ० 300(अ)—निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंधन) आदेश, 1968 के पैरा 3 के अधीन रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा सन् 1977 में हुए लोक सभा के तथा सन् 1977 और 1978 में हुए विभिन्न राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों में प्राप्त किए गए मतों की स्थिति का पुनरावलोकन किया है ;

और, निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उन दलों में से ऐसे दलों का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया जाना चाहिए (1) जिनके द्वारा उक्त निर्वाचनों में प्राप्त किए गए मतों की स्थिति आयोग के विचार से बहुत घटिया रही, (2) जिन्होंने उक्त निर्वाचनों में भाग नहीं लिया, तथा (3) जिन्होंने अब अपना कार्य करना बन्द कर दिया है, और उसके परिणामस्वरूप वे अब अस्तित्व में नहीं रहे हैं ;

और उन दलों को यह कारण बताओ सूचना भेजकर पर्याप्त अवसर दिया था कि क्यों न इस आयोग को उन सूचनाओं में बताएं गए कारणों से उन दलों का रजिस्ट्रीकरण खत्म करने के आदेश दे देने चाहिए ;

और, ऐसी कारण बताओ सूचनाओं के प्रत्युत्तर में जिन दलों से भी उनके उत्तर प्राप्त हुए उन पर विधिवत् रूप से विचार कर लिया गया है ;

और, उन में से कुछ दलों ने उक्त कारण बताओ सूचना का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है यद्यपि उन्हें एक अनुस्मारक-सूचना भी भेजी गई थी ;

159 G.1/79

और, इस प्रकार उन दलों का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया जाने के पश्चात् उक्त आदेश के पैरा 17 के उप-पैरा (2) के अनुसार अमान्यताके प्राप्त रजिस्ट्रीकृत दलों की सूची को अद्यतन बनाया जाता है ;

अतः, अब, ऊपर निर्दिष्ट आदेश के पैरा 17 के उप-पैरा (1) खण्ड (ग) के अनुसर्ग में और तारीख 25 जनवरी 1978 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3(ii) में का० आ० 41(अ) के रूप में प्रकाशित अपनी तारीख 25 जनवरी, 1978 की अधिसूचना सं० 56/78 (1) का अतिक्रमण करते हुए, निर्वाचन आयोग अपने प्राप्त रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों तथा वह राज्य या वे राज्य जिनमें वे दल काम कर रहे हैं, एतद्वारा निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट करता है :—

### सारणी

अमान्यता प्राप्त रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दल का नाम	वह राज्य या राज्य जिनमें वह दल कार्य करता है
1	2
1. अखिल भारतीय राम राज्य परिषद्	1. आन्ध्र प्रदेश, 2. बिहार, 3. गुजरात, 4. हरियाणा, 5. हिमाचल प्रदेश, 6. जम्मू-कश्मीर, 7. मध्य प्रदेश, 8. महाराष्ट्र, 9. उड़ीसा, 10. पंजाब, 11. राजस्थान, 12. उत्तर प्रदेश, 13. पश्चिमी बंगाल और 14. दिल्ली।
2. अखिल भारतीय लेबर पार्टी	पंजाब।

1	2
3. भारतीय सोशलिस्ट पार्टी	1. आंध्र प्रदेश, 2. बिहार, 3. गुजरात, 1. हिमाचल प्रदेश, 5. केरल, 6. मध्य प्रदेश, 7. महाराष्ट्र 8. उड़ीसा, 9. राजस्थान, 10. उत्तर प्रदेश, 11. पश्चिमी बंगाल और 12. दिल्ली।
4. माखण्ड पार्टी	1. बिहार, 2. उड़ीसा, और 3. पश्चिमी बंगाल।
5. मुस्लिम मजलिम	उत्तर प्रदेश।
6. नेशनल कन्वेंशन ऑफ नागालैंड	नागालैंड।
7. भारत की रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी	1. आसाम, 2. गुजरात, और 3. पश्चिमी बंगाल।
8. भारत की रिपब्लिकन पार्टी	1. बिहार, 2. हरियाणा, 3. महाराष्ट्र, 4. पंजाब, 5. तमिलनाडु, 6. उत्तर प्रदेश, 7. पश्चिमी बंगाल, 8. दिल्ली और 9. पॉण्डिचेरी।
9. भारत की रिपब्लिकन पार्टी (खोबरागडे)	1. आंध्र प्रदेश, 2. गुजरात, 3. हरियाणा, 4. कर्नाटक, 5. केरल, 6. मध्य प्रदेश, 7. महाराष्ट्र, 8. पंजाब, 9. तमिलनाडु, 10. उत्तर प्रदेश और 11. दिल्ली।
10. सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया	1. आसाम, 2. बिहार, 3. हरियाणा, 4. केरल, 5. उड़ीसा, 6. उत्तर प्रदेश, 7. पश्चिमी बंगाल, और 8. दिल्ली।
11. शिव सेना	महाराष्ट्र।
12. शोषित समाज दल (अखिल भारतीय)	1. बिहार, 2. मध्य प्रदेश 3. उत्तर प्रदेश, और 4. पश्चिमी बंगाल।
13. सिक्किम प्रजातंत्र कांग्रेस	सिक्किम।
14. त्रिपुरा स्टेट कांग्रेस फार डेमोक्रेसी	त्रिपुरा।

[सं० 56/79(4)]

वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

## NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 1979

S.O. 300(E).—Whereas the Election Commission has reviewed the poll performance of unrecognised political parties registered under para 3 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, at the general elections to the House of the People held in 1977 and to the various legislative assemblies held in 1977 and 1978;

And whereas the Commission is satisfied that the registration of such of those parties (1) whose poll performance at the said elections was very poor in the opinion of the Commission, (2) who did not participate at the said elections, and (3) who have since ceased to function and have therefore become defunct, should be cancelled;

And whereas adequate opportunity was afforded to those parties by sending show cause notices to them as to why the Commission should not order de-registration of the parties for the reasons given in those notices;

And whereas the replies received in response to such show cause notices from the parties who chose to submit their replies have been duly considered;

And whereas some of the parties have not responded to the show cause notice in spite of a reminder notice to them;

And whereas after such cancellation of registration, the list of unrecognised registered parties has to be brought upto-date in pursuance of sub-paragraph (2) of paragraph 17 of the said Order;

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of sub-paragraph (1) of paragraph 17 of the above cited order, and in supersession of its notification No. 56/78(1), dated 25th January, 1978 published as S.O. 41(E) in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3(ii), dated 25th January, 1978, the Commission hereby specifies in the Table below, the unrecognised political parties registered with it and the State or States in which they are functioning :—

TABLE

Name of the un-recognised registered political parties	State/States in which it functions
1	2
1. Akhil Bhartiya Ram Rajya Parishad	1. Andhra Pradesh, 2. Bihar, 3. Gujarat, 4. Haryana, 5. Himachal Pradesh, 6. Jammu and Kashmir, 7. Madhya Pradesh, 8. Maharashtra, 9. Orissa, 10. Punjab, 11. Rajasthan, 12. Uttar Pradesh, 13. West Bengal and 14. Delhi.
2. All India Labour Party	Punjab.
3. Bharatiya Socialist Party	1. Andhra Pradesh, 2. Bihar, 3. Gujarat, 4. Himachal Pradesh, 5. Kerala, 6. Madhya Pradesh, 7. Maharashtra, 8. Orissa, 9. Rajasthan, 10. Uttar Pradesh, 11. West Bengal and 12. Delhi.
4. Jharkhand Party	1. Bihar, 2. Orissa and 3. West Bengal.
5. Muslim Majlis	Uttar Pradesh
6. National Convention of Nagaland	Nagaland
7. Revolutionary Communist Party of India	1. Assam, 2. Gujarat, and 3. West Bengal.
8. Republican Party of India	1. Bihar, 2. Haryana, 3. Maharashtra, 4. Punjab, 5. Tamil Nadu, 6. Uttar Pradesh, 7. West Bengal, 8. Delhi and 9. Pondicherry.
9. Republican Party of India (Khobragade)	1. Andhra Pradesh, 2. Gujarat, 3. Haryana, 4. Karnataka, 5. Kerala, 6. Madhya Pradesh, 7. Maharashtra, 8. Punjab, 9. Tamil Nadu, 10. Uttar Pradesh and 11. Delhi.
10. Socialist Unity Centre of India	1. Assam, 2. Bihar, 3. Haryana, 4. Kerala, 5. Orissa, 6. Uttar Pradesh, 7. West Bengal and 8. Delhi.
11. Shiva Sena	Maharashtra.
12. Shoshit Samaj Dal (Akhil Bharatiya)	1. Bihar, 2. Madhya Pradesh, 3. Uttar Pradesh and 4. West Bengal.
13. Sikkim Prajatantra Congress	Sikkim
14. Tripura State Congress for Democracy	Tripura

[56/79(4)]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.